

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7  
संख्या: २५६/xxvii(7)/2009  
देहरादून: दिनांक: २५ अगस्त, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79 दिनांक 4 जून, 1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2. अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394 /दस-99-216/79 दिनांक 4 जून, 1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षको (यू०जी०सी०, ए०आई०सी० टी०ई०, आई०सी० ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होंगी।

4. उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेगीं।

5. उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6. संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: २५६(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा (से,  
24/08/09  
(टी०एन० सिंह)  
अपर सचिव।